

✓ 13850
8/3/04
8/3/04

रजि. सं. 9088
वि. सं. 204



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

पृ. 400

km. 30

Depth 150

CPB. 220

पृ. 6

सं. 26]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 20, 2004/पौष 30, 1925

No. 26]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 20, 2004/PAUSA 30, 1925

पोत परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जनवरी, 2004

प्रभारी
रा. वि. एकक

सा.का.नि. 56(अ).—केन्द्र सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नव मंगलूर पत्तन न्यास के न्यासी मंडल द्वारा बनाए गए और इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में दर्शित नव मंगलूर पत्तन न्यास कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) संशोधन विनियम, 2004 का अनुमोदन करती है।

2. ये विनियम इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नव मंगलूर पत्तन न्यास के न्यासी मंडल, नव मंगलूर पत्तन न्यास कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण व अपील) विनियम, 1980, जो समय-समय पर संशोधित है, में फिर से संशोधन करते हुए निम्नलिखित विनियम बनाता है।

1. इन विनियमों को नव मंगलूर पत्तन न्यास कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण व अपील) संशोधन विनियम, 2004 कहा जाएगा।

2. उक्त विनियम इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

3. न म प न्यास कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण व अपील) विनियम, 1980 में वर्तमान की अनुसूची की जगह निम्नलिखित अनुसूची प्रतिस्थापित होगी।

अनुसूची

क्र.सं.	पद विवरण	नियुक्ति प्राधिकारी	दंड लगाने के लिए सक्षम प्राधिकारी		अपीली प्राधिकारी
			प्राधिकारी	दंड	
1	2	3	4	5	6
1	महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 24 की उप-धारा (1) के खंड (क) में सम्मिलित पद	अध्यक्ष के साथ परामर्श के बाद केन्द्र सरकार	(क) अध्यक्ष केन्द्र सरकार	(i) से iv) (लघु दंड) सभी	केन्द्र सरकार केन्द्र सरकार

1	2	3	4	5	6
II	श्रेणी-I (महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 24 की उपधारा (1) के खंड (क) में सम्मिलित पदों को छोड़कर अन्य पद)	अध्यक्ष	उपाध्यक्ष	(i) से (iv) लघु दंड	अध्यक्ष
III	श्रेणी-II	अध्यक्ष	उपाध्यक्ष	(i) से (iv) लघु दंड सभी	केन्द्र सरकार अध्यक्ष
IV	श्रेणी-III	विभागाध्यक्ष	विभागाध्यक्ष	सभी	केन्द्र सरकार उपाध्यक्ष
V	श्रेणी-IV	विभागाध्यक्ष	विभागाध्यक्ष	सभी	उपाध्यक्ष

[फा. सं. पी आर-12016/12/2002-पी ई-I]

आर. के. जैन, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पणी : मूल विनियम दिनांक 28-3-1980 को सा.का.नि. सं. 148 (अ) में प्रकाशित हैं और बाद के संशोधन इस प्रकार हैं।

(i) सा. का. नि. सं. 364 (अ) दिनांक 26-03-1992

MINISTRY OF SHIPPING

(PORTS WING)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th January, 2004

G.S.R. 56(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of Section 124, read with Sub-Section (1) of Section 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the New Mangalore Port Trust (Classification, Control and Appeal) Amendment Regulations, 2004 made by the Board of Trustees of New Mangalore Port Trust as set out in the Schedule annexed to this Notification.

The said Regulations shall come into force from the date of publication of this Notification in the Official Gazette.

In exercise of the powers conferred by Section 28 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the New Mangalore Port Trust Board hereby makes the following Regulations further to amend the New Mangalore Port Trust Employees (Classification, Control and Appeal) Regulations, 1980 and as amended from time to time.

1. These Regulations may be called the New Mangalore Port Trust Employees (Classification, Control and Appeal) Amendment Regulations, 2004
2. The said Regulations shall come into force from the date of publication in the Official Gazette.
3. The existing Schedule to the NMPTE (CC&A) Regulations, 1980 is replaced with the following Schedule.

SCHEDULE

Sl. No.	Description of Post	Appointing Authority	Authority Competent to impose penalty		Appellate Authority
			Authority	Penalty	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Posts covered by clause (a) of Sub-Section (1) of Section 24 of Major Port Trust Act, 1963	Central Govt. after consultation with the Chairman	(A) Chairman Central Government	(i) to (iv) (Minor Penalties) All	Central Govt. Central Govt.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
II.	Class I (other than those) covered by clause (a) of Sub-Section (1) of section 24 of the Major Port Trust Act, 1963.	Chairman	Dy. Chariman	(i) to (iv) Minor Penalties	Chairman
			Chairman	All	Central Government
III.	Class II	Chairman	Deputy Chairman	(i) to (iv) Minor Penalties	Chairman
			Chairman	All	Central Government
IV.	Class III	Head of Department	Head of Department	All	Deputy Chairman
V.	Class IV	Head of Department	Head of Department	All	Deputy Chairman

[F. No. PR-12016/12/2002-PE-I]

R. K. JAIN, Jt. Secy.

Foot Note:— Principal Regulations were published in the Gazette of India under GSR No. 148(E) dated 28th March, 1980 and subsequently amended *vide*—

(i) GSR No. 364(E), dated 26th March, 1992.